



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 05.11.2021

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा, गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त शहबान पुत्र शबाब को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 05.11.21 को थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 578/21 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त शहबान पुत्र शबाब को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

शहबान पुत्र शबाब निवासी ग्राम मोहम्मदपुर थाना मोहम्मदी जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

नि0 अपराध अखिलेश कुमार यादव

का0 प्रमोद कुमार

का0 रवि रावत

थाना निघासन पुलिस द्वारा, जुआं खेलते हुए 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, मौके से ताश के पत्ते एवं 4,800 रुपये नगद बरामद

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना निघासन पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआं खेलते हुए 07 नफर अभियुक्तों 1. सर्वेश कुमार पुत्र रामरतन व 06 अन्य नफर अभियुक्तगण सर्व निवासीगण अम्बेडकरनगर कस्बा व थाना निघासन जनपद खीरी को 52 अदद ताश के पत्ते एवं 4,800 रुपये नगद बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना निघासन पर मु0अ0सं0 605/21 धारा 13 जुआं अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना नीमगांव पुलिस द्वारा, जुआं खेलते हुए 08 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, मौके से ताश के पत्ते एवं 10,950 रुपये नगद बरामद

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना नीमगांव पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआं खेलते हुए 08 नफर अभियुक्तों 1. राजू पुत्र मुरली व 07 अन्य नफर अभियुक्तगण सर्व निवासीगण भतूरी थाना नीमगांव जनपद खीरी को 52 अदद ताश के पत्ते एवं 10,950 रुपये नगद बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना नीमगांव पर मु0अ0सं0 341/21 धारा 13 जुआं अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 50 लीटर अवैध शराब सहित 04 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल के निर्देशन में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **50 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर 04 अभियुक्त** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **04 अभियोग** पंजीकृत किया गया।

क्र0सं0	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
---------	------	---------	-------------------------------

1.	थाना धौरहरा	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना निघासन	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना पलिया	10 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	50 लीटर	04 अभियुक्त गिरफ्तार